



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 395]

नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, सितम्बर 8, 1983/भाद्र 17, 1905

No. 395]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 1983/BHADRA 17, 1905

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विस्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
शेयर बाजार प्रभाग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1983

का. आ. 645(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार को बंगलौर स्टाक
एक्सचेंज लिमिटेड, बंगलौर से उनकी उप-विधियों में संशोधन
करने के लिए लिखित रूप से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति संविदा (विनियमन)
अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 10 की उप-धारा
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा
बंगलौर स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड, बंगलौर की उप-विधियों
में नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट संशोधन करती है, और केन्द्रीय
सरकार उस धारा की उप-धारा (4) के परन्तक के अन्तर्गण में
व्यापार के हित में, और ऋण-पत्रों के स्वस्थ बाजार के अवि-
लम्ब विकास के संवर्धन की दृष्टि से, उप-विधियों के उक्त
संशोधनों को पहले प्रकाशित करने की शर्त से एतद्वारा अभि-
मति देती है।

अनुसूची

बंगलौर स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड, बंगलौर की उप-विधियों
में —

700 GI/81

(1)

- (1) उप-विधि 120 के खण्ड (क) के शीर्षक में, पहली
पंक्ति में आने वाले शब्दों "और ऋण पत्रों (एण्ड
डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।
- (2) उप-विधि 120 के खण्ड (क) में पहली और दूसरी
पंक्ति में आने वाले शब्दों "और वाहक या रजि-
स्ट्रीकृत ऋण पत्रों (एण्ड बेंचरर और रजिस्टर्ड
डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।
- (3) उप-विधि 120 के खण्ड (क) का परन्तक हटा दिया
जाएगा।
- (4) उप-विधि 121 के शीर्षक में, शब्दों "और वाहक
प्रतिभूतियां (एण्ड बेंचरर सिक्योरिटीज)" को
हटा दिया जाएगा।
- (5) उप-विधि 121 में पहली पंक्ति में आने वाले शब्दों
"और वाहक प्रतिभूतियां (एण्ड बेंचरर सिक्यो-
रिटीज)" को हटा दिया जाएगा।
- (6) उप-विधि 122 में दूसरी तथा चौथी पंक्ति में आने
वाले शब्दों "और वाहक प्रतिभूतियां (एण्ड बेंचरर
सिक्योरिटीज)" को हटा दिया जाएगा।
- (7) उप-विधि 123 के खण्ड (ख) में पांचवीं पंक्ति में
आने वाले शब्दों "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)"
को हटा दिया जाएगा।

- (8) उप-विधि 128 का वर्तमान खण्ड (ख) उस उप-विधि के खण्ड (घ) के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा तथा उक्त उप-विधि 126 के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नए खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“ऋण पत्रों या बंध-पत्रों की व्याज सहित क्रय कीमत में कटौती ।

(ख) ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों के व्याज सहित सौद के बारे में क्रेता क्रय कीमत में से सकल आधार पर व्याज की कटौती करेगा बशर्ते कि विक्रेता द्वारा उसके ऋण-पत्रों की संपूर्ण अभिलेख की तारीख में या व्याज की अदायगी के प्रयोजन के लिए ऋण-पत्रों/बंध पत्रों की अन्तरण पुस्तकों को बंद करने की तारीख से पांच से कम दिन पहले दे दी गई हो ।

(ग) ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों के ऐसे सौदों के बारे में, जो व्याज सहित आधार पर किए गए हों लेकिन क्रेता को समय पर ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों की संपूर्ण करने में विक्रेता की असमर्थता के कारण ऋण-पत्र/बंध-पत्र बाजार में व्याज रहित हो जाने के बाद भुगतान किए गए हों, क्रेता क्रय कीमत में से सकल आधार पर व्याज की कटौती करेगा ।”

- (9) उप-विधि 129 के खण्ड (क) में दूसरी पंक्ति में आने वाले शब्दों “और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)” को हटा दिया जाएगा ।

- (10) उप-विधि 129 के खण्ड (ख) में, चौथी और पांचवीं पंक्ति में आने वाले शब्दों “और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)” को हटा दिया जाएगा ।

[एफ संख्या 2/10/एस. ई./82]
नीतिश सेन गुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Stock Exchange Division

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 1983

S.O. 645(E).—Whereas the Central Government has received a request in writing from the Bangalore Stock Exchange Ltd., Bangalore that the bye-laws made by it may be amended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the amendments to the bye-laws of the Bangalore Stock Exchange Ltd., Bangalore specified in the Schedule below, and in pursuance of the proviso to sub-section (4) of that section, the Central Government, in the interest of the trade, and with a view to promoting the development of a healthy market in debenture without delay, hereby dispenses with the condition of previous publication of the said amendments to the bye-laws.

SCHEDULE

In the bye-laws of the Bangalore Stock Exchange Ltd., Bangalore,—

- (1) in the heading of clause (a) of Bye-law 120, the words “and debentures” appearing in line 1, shall be deleted.
- (2) in clause (a) of Bye-law 120, the words “and bearer or registered debentures” appearing in lines 1 and 2, shall be deleted.
- (3) the proviso to clause (a) of Bye-law 120, shall be deleted.
- (4) in the heading of Bye-law 121, the words “and Bearer Securities” shall be deleted.
- (5) in Bye-law 121, the words “and bearer securities” appearing in line 1, shall be deleted.
- (6) in Bye-law 122, the words “and bearer securities” appearing in lines 2 and 4, shall be deleted.
- (7) in clause (b) of Bye-law 123, the words “and debentures” appearing in line 5 shall be deleted.
- (8) the existing clause (b) of Bye-law 126 shall be reclassified as clause (d) of that Bye-law and after clause (a) of the said Bye-law 126, the following new clauses shall be inserted, namely :—

“Deduction from Cum-interest Purchase Price of Debentures or Bonds.

- (b) in respect of cum-interest transaction in debentures|bonds the buyer shall deduct from the purchase price the interest on gross basis provided the securities are delivered to him by the seller less than five days before the record date or the date of closure of the Transfer Books of the debentures|bonds for the purpose of payment of interest;
- (c) in respect of transaction in debentures|bonds entered into on a cum-interest-basis but settled after the debentures|bonds become ex-interest in the market due to the inability of the seller to deliver to the buyer the debentures|bonds in time, the buyer shall deduct from the purchase price the interest on a gross basis.”
- (9) in clause (a) of Bye-law 129, the words “and debentures” appearing in line 2, shall be deleted.
- (10) in clause (b) of Bye-law 129, the words “and debentures” appearing in lines 4 and 5, shall be deleted.

[F. No. 2/10/SE/82]
N. K. SENGUPTA, Jt. Secy.